


पत्रांक - ५०३०/२५०/२०२० / ५०२०३१३) २०१८-१९/१६०/१५.५.२०१८

डाटा एन्ट्री आपरेटर के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद तथा दुर्गम-सुगम में तैनात कार्मिक, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक एवं सुगम-दुर्गम में रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	निदेशालय/ मण्डल/ जनपद स्तर के पदनाम	पदों का विवरण					सुगम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम के लिये पात्र कार्मिक	दुर्गम में रिक्त पद			सुगम के लिये पात्र कार्मिक	सुगम में रिक्त पद			अनुविष्ट
		कुल स्वी० पद	कार्यरत	रिक्त पद						वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग		वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग	
				प्रतिनियुक्ति पर	वास्तविक रिक्त	कुल रिक्त											
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	01	-	03	03	01	-	-	-	-	01	03	01	04	डाटा एन्ट्री आपरेटर के 4 पद सुगम में स्वीकृत	
योग		04	01	-	-	03	01	-	-	-	-	01	03	01	04		



(मधु बन्दूनी)
प्रधान सहायक


(दिनेश जोशी)
मु०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)


(डॉ० ए०के०शर्मा)
उ०कृ०नि० मा०स०


(क०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक